

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2023—आश्विन 21, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

कार्यालय, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रारूप—सोलह

[नियम 19(2) देखिये]

धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास स्कीम क्रमांक 05/2023 अर्थात् नवीन मास्टर प्लान 2035 में प्रस्तावित 30मी. चौड़ी रोड के आसपास योजना/सिरोल तिराहे से झॉंसी बाईपास के आसपास योजना ग्राम सिरोल, डोंगरपुर, नैनागिर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

स. क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	228	0.70
2.	चबूतरा घटवरया बाबा	सिटी सेंटर	सिरोल	229	0.408
3.	अमरिसह पुत्र सीताराम	सिटी सेंटर	सिरोल	231/2/2	0.127
4.	राजेंद्र सिंह पुत्र सीताराम	सिटी सेंटर	सिरोल	231/2/3	0.116
5.	मोहनिसंह पुत्र सीताराम	सिटी सेंटर	सिरोल	231/2/4	0.366
6.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	232	0.052

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	233	0.042
8.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	235	0.031
9.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	237	0.167
10.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	238	0.105
11.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	239	0.46
12.	सरदार सिंह, पंजाब सिंह राजवीर सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	240	0.387
13.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	242	0.418
14.	नाहरसिंह पुत्र मातादीन	सिटी सेंटर	सिरोल	243 / 2	0.017
15.	नाहरसिंह पुत्र मातादीन	सिटी सेंटर	सिरोल	244 / 2	0.048
16.	श्रीमती शीलादेवी पत्नी प्रहलादसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	245	0.512
17.	श्रीमती शीलादेवी पत्नी प्रहलादसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	531 / 245	0.743
18.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	247	0.23
19.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	248	0.042
20.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	249	0.439
21.	प्रहलाद सिंह पुत्र चोखेसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	250	0.899
22.	श्रीमती शीलादेवी पत्नी प्रहलाद सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	253	1.62
23.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	254	0.105
24.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	255	0.815
25.	प्रहलाद सिंह पुत्र चोखेसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	257	0.679
26.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	258	0.052
27.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	259	0.084
28.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	260	0.094
29.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	261	0.094
30.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	262	0.115
31.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	263	0.052
32.	प्रहलाद सिंह पुत्र चोखेसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	264	0.491
33.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	268	0.052
34.	जयदीप अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल	सिटी सेंटर	सिरोल	269 / 2 / 1	0.052

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	बद्रीप्रसाद पुत्र महाराज सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	269/2/2	0.209
36.	रणवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	272/1	0.094
37.	धीरज प्रकाश अग्रवाल पुत्र भानु प्रकाश	सिटी सेंटर	सिरोल	273/1/2	0.1669
38.	रामाधार सिंह पुत्र गंभीर सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	273/2	0.188
39.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	274	0.219
40.	रामोबाई उर्फ ठाकुर बेटी	सिटी सेंटर	सिरोल	275/1	0.178
41.	धीरज प्रकाश अग्रवाल पुत्र भानु प्रकाश	सिटी सेंटर	सिरोल	275/2	0.115
42.	प्रहलाद सिंह पुत्र चोखेसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	276	0.23
43.	प्रहलाद सिंह पुत्र चोखेसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	277/1	0.272
44.	गौतम राय रैली पुत्र गुलशन राय रैली	सिटी सेंटर	सिरोल	277/2	0.125
45.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	278	0.021
46.	रामनारायण पुत्र ओछे सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	279/1	0.24
47.	श्यामानन्द शुक्ल पुत्र रामक्रिशन शुक्ल	सिटी सेंटर	सिरोल	279/2	0.115
48.	रामू उर्फ मनोज पुत्र मुंशीसिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	281/1/1	0.835
49.	भीकम सिंह पुत्र फकीर सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	281/2	0.113
50.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	282/1	0.073
51.	सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी	सिटी सेंटर	सिरोल	282/2/1/1	0.791
52.	भीकम सिंह पुत्र फकीर सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	282/2/2	0.032
53.	भीकम सिंह पुत्र फकीर सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	283	0.982
54.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	285	0.115
55.	सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी	सिटी सेंटर	सिरोल	286	1.568
56.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	287	0.282
57.	सद्भाव होटलस	सिटी सेंटर	सिरोल	288	0.5540
58.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	289	0.0575
59.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	290	0.26
60.	वनस्थली शिक्षा समिति	सिटी सेंटर	सिरोल	292/1	0.4150
61.	प्रीति गुप्ता पत्नी संजीव गुप्ता	सिटी सेंटर	सिरोल	292/2/1	
62.	मीना सिंह भदौरिया पुत्री केदार सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	292/2/3	
63.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	293	0.314
64.	चन्दन सिंह पुत्र मजबूत सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	307/1	0.0430
65.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	307/2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
66.	चन्दन सिंह पुत्र मजबूत सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	308 / 1	} 0.3440
67.	लीना भटनागर पत्नी अक्षय भटनागर	सिटी सेंटर	सिरोल	308 / 2	
68.	अर्चना शर्मा पत्नी कैलाश शर्मा	सिटी सेंटर	सिरोल	308 / 3	
69.	रंजोर सिंह पुत्र छविराज सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	333	0.1531
70.	उम्मेद सिंह पुत्र छविराम सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	351	0.2848
71.	महेश भरद्वाज पुत्र मुन्ना लाल भरद्वाज	सिटी सेंटर	सिरोल	352 / 4 / 2	
72.	मनस्वी रैली, गौतम राय रैली	सिटी सेंटर	सिरोल	362 / 1	} 0.6459
73.	मनस्वी रैली, गौतम राय रैली	सिटी सेंटर	सिरोल	362 / 2	
74.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	363	0.0435
75.	बद्री प्रसाद पुत्र महाराज सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	368 / 1	0.52
76.	रमेश पुत्र सीता राम	सिटी सेंटर	सिरोल	369 / 1	0.116
77.	प्रेमा बाई पत्नी महताब सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	369 / 2	0.105
78.	प्रेमा बाई पत्नी महताब सिंह	सिटी सेंटर	सिरोल	369 / 3	0.116
79.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	सिरोल	370	1.547
80.	प्रवीण शिवहरे, नवीन शिवहरे	सिटी सेंटर	सिरोल	371	0.3857
81.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	238	1.244
82.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	239	2.518
83.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	240	3.763
84.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	241	0.773
85.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	242	0.021
86.	सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	243	0.658
87.	श्री शिवलाल गांधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	244 / 1	0.318
88.	सोनाबाई बेवा जगमन सिंह	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	244 / 2	0.318
89.	दीनदयाल पुत्र राम सिंह	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	245 / 2	0.627
90.	मेघा पुत्र हरनाम	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	246 / 1	0.418
91.	रॉयल डेवेलोपर्स डॉक्टर पुरुसोत्तम जाजू	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	246 / 2	0.418
91.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	247	0.261
92.	रॉयल डेवेलोपर्स डॉक्टर पुरुसोत्तम जाजू	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	248 / 1	0.501
93.	मेघा पुत्र हरनाम	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	248 / 2	0.491
94.	सतवीर सिंह पुत्र करन सिंह	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	250	1.066
95.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	251	0.3030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
96.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	254	0.052
97.	आदिराम, श्याम लाल पुत्र गंगा राम	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	257 / 3	0.01
98.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	258	0.355
99.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	260	0.42
100.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	261	0.105
101.	रघुवर दयाल पुत्र प्रमोद कुमार	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	262 / 1	0.52
102.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	262 / 2	0.314
103.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	263 / 2	0.01
104.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	264	0.63
105.	सत्यम बिल्डर्स	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	266 / 2	0.105
106.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	267	0.063
107.	श्रीमती सरस्वती देवी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	269 / 2	1.285
108.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	270	0.105
109.	सुनील गांधी पुत्र शिवलाल गांधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	271	0.115
110.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	272	0.0826
111.	मुरलीधर पुत्र भगवान दास	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	273 / 1	0.9136
112.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	273 / 2	
113.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	306	0.0138
114.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	307	0.0143
115.	प्रीति गोयल पत्नी यशगोयल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	308 / 1	0.2204
116.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	308 / 2	0.01
117.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	309	0.042
118.	प्रीती गोयल पत्नी यस कुमार गोयल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	310 / 1	0.373
119.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	310 / 2	
120.	सुनीता बघेल पत्नी रघुवीर सिंह बघेल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 1 / 1	0.178
121.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 3	
122.	रवि पुत्र सुरेश	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 4 / 1	
123.	रवि पुत्र सुरेश	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 4 / 2 / 1	
124.	रवि पुत्र सुरेश	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 4 / 2 / 2	
125.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	312 / 6	0.115
126.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	314	0.042
127.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	316	0.199
128.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	318 / 1	0.836
129.	शिवकुमार पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	318 / 2	1.536
130.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	319	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	320/1	3.135
132.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	320/2	0.01
133.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	321	0.481
134.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	373	1.745
135.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	375	0.021
136.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	381	0.167
137.	गजाराजा मर्सी होम	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	387	0.073
138.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	390	0.042
139.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	391	0.063
140.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	392	0.021
141.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	393	0.052
142.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	398	0.23
143.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	400	0.324
144.	तेज सिंह पुत्र ओछे राम	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	408/1	0.522
145.	सुनील गाँधी पुत्र शिवलाल गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	408/2	0.523
146.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	409	0.575
147.	परमाल सिंह पुत्र तेज सिंह	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	411/1/1/1	1.462
148.	राम कुमार कटारे पुत्र किशन लाल कटारे	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	411/1/1/2	
149.	राम कुमार कटारे पुत्र किशन लाल कटारे	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	411/1/2	
150.	राम कुमार कटारे पुत्र किशन लाल कटारे	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	411/1/3	
151.	राम कुमार कटारे पुत्र किशन लाल कटारे	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	412/1	0.7994
152.	राम कुमार कटारे पुत्र किशन लाल कटारे	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	412/2	0.8726
153.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	413	3.344
154.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	414	3.344
155.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	416	2.396
156.	श्रीमती राखी पत्नी संजय पाल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	417/1/1	0.5584
157.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	417/1/2	
158.	श्री धवगाँधी पुत्र सुनील गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	417/1/3	
159.	रीटा गाँधी पत्नी सुनील गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	417/2	0.1679
160.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	418/1/1	
161.	श्री धवगाँधी पुत्र सुनील गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	418/1/2	0.1679
162.	श्री धवगाँधी पुत्र सुनील गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	418/1/3	
163.	सुनील गाँधी पुत्र शिव लाल गाँधी	सिटी सेंटर	डोंगरपुर		0.0506
164.	श्रीमती कुसुम गोयल पत्नी जी सी गोयल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	423/1	
165.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	423/1/2	
166.	श्रीमती कुसुम गोयल पत्नी जी सी गोयल	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	423/2	
167.	श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी सुनील गुप्ता	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	423/3	0.0506
168.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	डोंगरपुर	423/4	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
169.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	7	0.105
170.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	8	0.209
171.	अदब सिंह पुत्र रामदयाल	सिटी सेंटर	नैनागिर	9	0.183
172.	सामलिया पुत्र देवी	सिटी सेंटर	नैनागिर	10	0.291
173.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	12 / 214	0.01
174.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	13	0.021
175.	मोतीराम पुत्र हरजीत	सिटी सेंटर	नैनागिर	14 / 3	0.24
176.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	15	0.094
177.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	16	0.063
178.	अंगूरी पत्नी नंदा	सिटी सेंटर	नैनागिर	17 / 1	0.23
179.	अंगूरी पत्नी नंदा	सिटी सेंटर	नैनागिर	17 / 2	
180.	रवि पुत्र सुरेश	सिटी सेंटर	नैनागिर	19	0.031
181.	रवि पुत्र सुरेश	सिटी सेंटर	नैनागिर	20	0.648
182.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	21	0.052
183.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	22	0.326
184.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	23	0.051
185.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	24	0.0432
186.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	25	0.232
187.	संजय सिंह पुत्र मोहर सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	26 / 1	0.326
188.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	26 / 2	
189.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	27	0.0515
190.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	28 / 1 / 1	0.528
191.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	28 / 1 / 2	
192.	सुरेश पुत्र बदन सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	28 / 2	0.031
193.	बुद्धपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	29 / 1	0.7609
194.	बुद्धपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह	सिटी सेंटर	नैनागिर	29 / 2	
195.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	29 / 3	
196.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	नैनागिर	30	0.0453
योग:					70.71

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से स्कीम में सम्मिलित किये गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा.

(G-1969)

प्रारूप-सोलह
नियम 19(2) देखिये

धारा 50 की उप-धारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास स्कीम क्रमांक 002/2020 अर्थात् लालियापुरा अंडरपास से ब्लूलोटस कॉलोनी तक मास्टर प्लान की सड़क के आस-पास योजना ग्राम ललियापुरा, महलगाँव, अलापुर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गए खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-

स. क्र.	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1634	0.094
2.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1635-1/मिन-1	0.366
3.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1635-1/मिन-2	0.837
4.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1635-2/मिन-2	1.933
5.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1636-1/मिन-1	0.105
6.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1636-1/मिन-2	0.837
7.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1636/2	2.403
8.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1637/1	1.36
9.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1637/2	0.972
10.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1716/मिन-1	1.169
11.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1716/मिन-2	
12.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1717/1 मिन-1	1.829
13.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1717/1 मिन-2	0.627
14.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1717/1 मिन-3	0.523
15.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1717/2	0.366
16.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1718/1	2.163
17.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1718/2	0.627
18.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1718/3 1718/4	0.554
19.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगाँव	1719/1	2.707
20.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगाँव	1719/2	0.47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1719/3, 1719/4, 1719/5,	0.167
22.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1720	2.781
23.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1721	0.0961
24.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1722/1	
25.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगांव	1722/2, 1722/3	0.5766
26.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगांव	1723/1	2.111
27.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1723/2/मिन-1	0.084
28.	जगदीश, उमाशंकर, रमेश, राधेश्याम, सतीष, महेश, नरेन्द्र, दिलीप पुत्र रामस्वरूप	सिटी सेंटर	महलगांव	1723/2/मिन-2 1723/3, 1723/4, 1723/5, 1723/6	1.275
29.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1724	0.01
30.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1725	0.637
31.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1726/1/मिन-1	0.319
32.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1726/1/मिन-2	0.663
33.	छोटेसिंह, बृजेशसिंह पुत्र मन्नासिंह	सिटी सेंटर	महलगांव	1726/2	1.484
34.	आधुनिक बिल्टकॉन प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	महलगांव	1726/3	0.878
35.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1727/मिन-1	2.902
36.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1727/मिन-2	
37.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1733	0.1847
38.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1737	2.596
39.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1738/मिन-1	0.7238
40.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1738/मिन-2	
41.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1739/मिन-1	2.862
42.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1739/मिन-2	0.209
43.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1740/1	2.713
44.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1740/2 मिन-1	
45.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1740/2 मिन-2	
46.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1741	0.9947
47.	मु. धन्वन्ति बेबा भागीरथ भगवानदास हरिसिंह रतनसिंह उत्तमसिंह दयाराम आनंद श्याम पुत्र भागीरथ	सिटी सेंटर	महलगांव	1742/1 मिन-1	0.627

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48.	छोटेसिंह, बृजेशसिंह पुत्र मन्नासिंह	सिटी सेंटर	महलगांव	1742/2	0.439
49.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1743/1/मिन-2	0.554
50.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1743/2	0.575
51.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1743/3	1.076
52.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1744/1/मिन-1	1.16
53.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1744/1/मिन-2	0.418
54.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1744/1/मिन-3	0.982
55.		सिटी सेंटर	महलगांव	1744/2	0.857
56.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1744/3	0.617
57.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1745	1.362
58.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1746/1/मिन-1	2.754
59.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1746/1/मिन-2	
60.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1746/1/मिन-3	
61.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1746/2	
62.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1747/1/मिन-1	0.575
63.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1747/1/मिन-2	0.408
64.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1747/1/मिन-3	0.408
65.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1747/2/मिन-1	1.103
66.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1747/2/मिन-2	0.851
67.	आधुनिक बिल्टकॉन प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	महलगांव	1748/1/मिन-1	0.836
68.		सिटी सेंटर	महलगांव	1748/1/मिन-2	0.888
69.		सिटी सेंटर	महलगांव	1748/2/मिन-1	1.531
70.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1748/2/मिन-2	0.089
71.	मु. द्रोबाई बेवा कुनिसह भीकमसिंह, रामजीत, रघुवीर, पिता कुन्दनसिंह	सिटी सेंटर	महलगांव	1749/1	2.094
72.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1749/2	
73.		सिटी सेंटर	महलगांव	1749/3	
74.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1750	0.0986
75.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1752/1/मिन-1	0.775
76.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1752/1/मिन-2	0.134
77.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1752/2	0.737
78.	तेजपाल पुत्र गनपतिया	सिटी सेंटर	महलगांव	1752/3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-1	3.617
80.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-2	0.063
81.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-3	0.021
82.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-4	0.021
83.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-5	0.031
84.	मनोहर थिरानी पुत्र गिरधरलाल थिरानी	सिटी सेंटर	महलगांव	1753/मिन-6	0.01
85.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	महलगांव	1754	0.188,
86.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	ललियापुरा	2	0.023
87.	समता लोक संथान कार्यालय आई.टी.एम. कैपस सिधौली रमासंकर सिंह पुत्र लालसिंह	सिटी सेंटर	ललियापुरा	3/1	0.533
88.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	ललियापुरा	3/मिन-2	0.073
89.	समता लोक संथान कार्यालय आई.टी.एम. कैपस सिधौली रमासंकर सिंह पुत्र लालसिंह	सिटी सेंटर	ललियापुरा	4/1	0.658
90.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	ललियापुरा	4/मिन-2	0.314
91.	शिवगंगा रिसॉर्ट्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अमरसिंह पुत्र रामावतारसिंह	सिटी सेंटर	ललियापुरा	73/1	0.23
92.	शिवगंगा रिसॉर्ट्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अमरसिंह पुत्र रामावतारसिंह	सिटी सेंटर	ललियापुरा	73/2	0.397
93.	शिवानी इन्टरप्राइसेस द्वारा पार्टनर संगीता गुप्ता पत्नी राजकुमार गुप्ता	सिटी सेंटर	ललियापुरा	74/1	0.92
94.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	ललियापुरा	74/मिन-2	0.596
95.	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1/1	2.321
96.	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1/2	0.125
97.	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1/3	0.1888
98.	घनश्याम पुत्र राजवहादुर	ग्वालियर	कोटाविरान	1/4	0.417
99.	राघवबिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवंसी पुत्र रणधीर सिंह	ग्वालियर	कोटाविरान	9	0.134
100.	राघवबिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवंसी पुत्र रणधीर सिंह.	ग्वालियर	कोटाविरान	10	0.0282
101.	राघवबिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवंसी पुत्र रणधीर सिंह.	ग्वालियर	कोटाविरान	11	0.6042
102.	राघवबिल्डर्स प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर अलोक रघुवंसी पुत्र रणधीर सिंह.	ग्वालियर	कोटाविरान	12/1	0.314

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
103.	(शासकीय)	ग्वालियर	कोटाविरान	12/2	0.627
104.	(शासकीय)	ग्वालियर	कोटाविरान	13	0.0439
105.	जरिये राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र आत्माराम उपाध्याय	सिटी सेंटर	अलापुर	22/1	0.114
106.	अभिषेक सिंह भदौरिया पुत्र कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया	सिटी सेंटर	अलापुर	22/2	
107.	राजेन्द्र पुत्र आत्माराम उपाध्याय	सिटी सेंटर	अलापुर	22/3/मिन-1	
108.	राजेन्द्र आत्माराम उपाध्याय	सिटी सेंटर	अलापुर	22/3/मिन-2	
109.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	22/4	
110.		सिटी सेंटर	अलापुर	22/5	
111.		सिटी सेंटर	अलापुर	23/1	0.276
112.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	23/2	
113.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	23/3	
114.		सिटी सेंटर	अलापुर	23/4	
115.		सिटी सेंटर	अलापुर	23/5	
116.		सिटी सेंटर	अलापुर	23/6	
117.		सिटी सेंटर	अलापुर	23/7	
118.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	74	2.477
119.		सिटी सेंटर	अलापुर	78/1	
120.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	78/2	0.157
121.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	78/3	
122.		सिटी सेंटर	अलापुर	78/4	
123.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	79	0.105
124.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	80	0.29
125.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	81	0.12
126.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	283	0.1598
127.	मंशाराम पुत्र गम्भीरसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	284	0.49
128.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	285	0.334
129.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	286/2/मिन-1	0.209
130.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	286/2/मिन-2	0.355
131.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	286/2	0.784
132.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	286/3	0.146
133.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	287	0.428

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
134.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	288 / 1	0.144
135.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	288 / 2	0.546
136.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	289 / 1	0.596
137.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	289 / 2	0.314
138.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	290 / 1	0.01
139.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	290 / 2	0.021
140.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	290 / 3	0.084
141.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	290 / 4	0.721
142.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	291 / 1	0.031
143.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	291 / 2	0.428
144.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	292	0.065
145.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	293	0.37
146.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	294	1.63
147.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	295	1.482
148.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	296	0.0435
149.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	297	1.053
150.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	298	2.257
151.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	299	2.665
152.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	300	2.006
153.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	301 / 1	2.09
154.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	301 / 2 / 1	0.861
155.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	301 / 2 / 2	1.719
156.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	302 / 1मिन-1	0.585
157.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	302 / 1मिन-2	0.836
158.	(गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्ली, बल्लू पुत्र कनैहसिंह)	सिटी सेंटर	अलापुर	302 / 2	0.502
159.	छिद्दी पुत्र दीना	सिटी सेंटर	अलापुर	302 / 2मिन-1	0.502
160.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	302 / 3मिन-2	0.01
161.	गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्ली, बल्लू पुत्र कनैहसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	303 / 1	0.397
162.	सहोदराबाई पत्नी किशनलाल	सिटी सेंटर	अलापुर	303 / 2	0.397
163.		सिटी सेंटर	अलापुर	303 / 3	0.261

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
164.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	303/4	0.021
165.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	303/5	1.662
166.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	303/6	0.01
167.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	303/7	0.47
168.	(भुराजश्र)	सिटी सेंटर	अलापुर	304/1	1.222
169.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	304/2	0.072
170.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	304/3	1.306
171.	चेतराम पुत्र भोलाराम	सिटी सेंटर	अलापुर	304/4	0.157
172.	चेतराम पुत्र भोलाराम	सिटी सेंटर	अलापुर	304/5	0.146
173.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	305/1	0.021
174.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	305/2	0.063
175.	रामदयाल पुत्र हरिराम	सिटी सेंटर	अलापुर	305/3	0.084
176.	सहोदराबाई पत्नी किशन लाल	सिटी सेंटर	अलापुर	305/4	0.073
177.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	305/5	1.233
178.	भुराजश्र	सिटी सेंटर	अलापुर	305/6	0.105
179.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	305/7	0.324
180.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्र रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	305/8/2	0.105
181.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	305/9	0.836
182.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	306/1	0.052
183.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	306/2	0.617
184.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	306/3	0.063
185.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	306/4	1.254
186.		सिटी सेंटर	अलापुर	306/5	0.606

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
187.	भग्गो बेवा बाबुसिंह, सूरतसिंह, रघुनाथसिंह पुत्रगढ़ बाबूसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	306 / 6	1.087
188.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	306 / 7	0.303
189.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	306 / 8	0.021
190.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	307 / 1	1.777
191.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरन सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	307 / 2	0.617
192.	कदमसिंह, भगवानसिंह, दाताराम, पिता ओछा	सिटी सेंटर	अलापुर	307 / 3	1.014
193.	मुकमलाबाई बेवा ग्याराम	सिटी सेंटर	अलापुर	307 / 4	0.815
194.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 1	0.679
195.	मुकमलाबाई बेवा ग्याराम	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 2	0.24
196.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 3	0.052
197.		सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 4	0.386
198.	सहोदराबाई पत्नी किशन लाल	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 5	0.627
199.	गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्ली, बल्लू, पुत्र कनैहसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 6	0.063
200.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 7	0.031
201.		सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 8	
202.		सिटी सेंटर	अलापुर	308 / 99	0.115
203.	केदारसिंह पुत्र रामभरोस	सिटी सेंटर	अलापुर	309 / 1	1.703
204.		सिटी सेंटर	अलापुर	309 / 2	0.052
205.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	309 / 3	0.021
206.	छिद्दी पुत्र दीना	सिटी सेंटर	अलापुर	309 / 4	0.209
207.	गन्धर्वसिंह व भुरा, कल्ली, बल्लू, पुत्र कनैहसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	309 / 5	0.052
208.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेंद्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	310 / 1	0.878
209.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	310 / 2	1.568
210.	मंगलिया, घमन्डी पिता शंकरलाल	सिटी सेंटर	अलापुर	311 / 1	0.585
211.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	311 / 2	0.867

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
212.	केदारसिंह पुत्र रामभरोस	सिटी सेंटर	अलापुर	311/3	0.397
213.		सिटी सेंटर	अलापुर	311/4	
214.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	311/5	0.355
215.	सीताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	311/6	0.992
216.		सिटी सेंटर	अलापुर	312/1	
217.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	312/2	1.75
218.		सिटी सेंटर	अलापुर	312/3	
219.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	313/1	0.01
220.	सीताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	313/2	0.584
221.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	313/3	0.209
222.	सीताराम पुत्र मंगलसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	314/1	0.052
223.	विट्टीबाई पत्नी सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	314/2	0.293
224.	कोका चोखेलाल चरना देवीलाल पुत्रगण धनीराम	सिटी सेंटर	अलापुर	314/3/मिन-1	1.463
225.	रोशनलाल पिता छिद	सिटी सेंटर	अलापुर	314/3/मिन-2	1.379
226.		सिटी सेंटर	अलापुर	315/1	0.217
227.		सिटी सेंटर	अलापुर	315/2	
228.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	315/3	
229.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	316/1	1.108
230.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	316/2	0.554
231.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	317/1	1.421
232.	विट्टीबाई पत्नी सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	317/2	0.01
233.	विट्टीबाई पत्नी सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	317/3	0.011
234.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	318/1	2.215
235.	विट्टीबाई पत्नी सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	318/2	0.042
236.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	319	2.445
237.	राजेन्द्र सिंह पुत्र सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	320/1	0.909
238.	मानसिंह पुत्र भरोस	सिटी सेंटर	अलापुर	320/2	0.24
239.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	320/3	1.975
240.	राजेन्द्र सिंह पुत्र सुघर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	331/1	0.094
241.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	331/2	0.076
242.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोक सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	332/1	
243.		सिटी सेंटर	अलापुर	332/2	1.505
244.		सिटी सेंटर	अलापुर	332/3	
245.		सिटी सेंटर	अलापुर	332/4	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
246.	इन्दरसिंह पुत्र रघुवर सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	333/1	0.261
247.	विजय कुमार गर्ग पुत्र श्री कृष्ण गर्ग	सिटी सेंटर	अलापुर	333/2	0.366
248.	रामबाई उर्फ गुडडीबाई पुत्री रघुवरसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	333/3/1	0.22
249.	सिचाई विभाग मध्यप्रदेश शासन	सिटी सेंटर	अलापुर	333/3/2	0.355
250.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	333/4	0.836
251.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	333/5	0.031
252.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	333/6	0.052
253.		सिटी सेंटर	अलापुर	333/7	0.063
254.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	334/1	0.826
255.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	334/2	0.031
256.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	334/3	0.063
257.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	334/4	0.512
258.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	334/5	1.515
259.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	334/6	0.449
260.	शान्तीबाई बेवा सुंदरसिंह, नरेश, कमलेश, पुत्र सुंदरसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	334/7	0.543
261.	इन्दरसिंह पुत्र रघुवरसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	334/8	0.094
262.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	335/1	0.052
263.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	335/2	1.557
264.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	335/3	0.761
265.	कमलसिंह, भागीराम पिता भोदू	सिटी सेंटर	अलापुर	335/4/मिन-1	0.439
266.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	335/4/मिन-2	0.439
267.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	335/5	0.794
268.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	335/6	0.209
269.	(शासकीय)	सिटी सेंटर	अलापुर	336/1	0.157
270.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	336/2	0.084

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
271.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	336/3	0.23
272.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	337/1	1.348
273.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह, पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	337/2	0.074
274.		सिटी सेंटर	अलापुर	338/1	
275.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/2	0.01
276.		सिटी सेंटर	अलापुर	338/3	
277.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/4	0.01
278.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/5	
279.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/6	0.042
280.	आधुनिक बिल्डकाम प्राय. लिमि. द्वारा डायरेक्टर अशोकसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	338/7	0.042
281.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/8	0.105
282.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	338/9	0.01
283.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	338/10	0.021
284.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	339	1.09
285.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	340/1	0.345
286.	शासकीय	सिटी सेंटर	अलापुर	340/2	0.293
287.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	340/3	0.261
288.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	340/4	0.01
289.	रामजीलाल, ओमप्रकाश, लालसिंह, लाखनसिंह, हाकिम सिंह पुत्रगढ़ रामचरण सिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	340/5	0.272
290.	भग्गो बेवा बाबुसिंह, सूरतसिंह, रघुनाथसिंह, पुत्रगढ़ बाबूसिंह	सिटी सेंटर	अलापुर	340/6	0.052
291.		सिटी सेंटर	अलापुर	25	0.1555
TOTAL					167.5834

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से स्कीम में सम्मिलित किये गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा.

(G-1970)

विनोद भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वसुधा इंफ्रास्ट्रक्चर पं. क्र. 04-17-01-0202-20 दि. 28-11-2020, पता वार्ड नंबर 04, पूजा प्राइम टावर, ग्राउंड फ्लोर, आदर्श नगर, छिंदवाड़ा (म.प्र.) उक्त फर्म में चार भागीदार हैं। 1. श्री ब्रजेश मण्डराह पिता श्री भरत लाल मण्डराह, 2. श्री नेमीचंद वर्मा पिता श्री बालकराम वर्मा, 3. श्री संजय श्रीवास्तव पिता श्री सुरेश श्रीवास्तव, निवासी वार्ड नंबर 8, राज गार्डन, परतला, छिंदवाड़ा (म.प्र.), 4. श्री दिलीप पहाड़े पिता श्री रामचरन पहाड़े उक्त फर्म में दिनांक 01-07-2023 को भागीदार श्री राकेश श्रीवास्तव पिता श्री सुरेश श्रीवास्तव, निवासी राज गार्डन के पीछे, परतला, छिंदवाड़ा (म.प्र.) एवं श्री अतुल श्रीवास्तव पिता श्री सुरेश लाल श्रीवास्तव, निवासी परिसर रोड, राज गार्डन के पास, परतला, छिंदवाड़ा (म.प्र.) एवं श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव पत्नी श्री अविनाश श्रीवास्तव, निवासी राज गार्डन रेस्टॉरेंट, परसिआ रोड, परतला, छिंदवाड़ा (म.प्र.) भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा उक्त दिनांक को भागीदार क्र. 1. श्री ब्रजेश मण्डराह पिता श्री भरत लाल मण्डराह, निवासी वार्ड नंबर 9, एल आई सी ऑफिस के सामने, विशु नगर, छिंदवाड़ा (म.प्र.), 2. श्री नेमीचंद वर्मा पिता श्री बालकराम वर्मा, निवासी वार्ड नंबर 40, राज नगर, लोनिया कर्बल, छिंदवाड़ा (म.प्र.), 4. श्री दिलीप पहाड़े पिता श्री रामचरन पहाड़े, निवासी वार्ड नंबर 1, विजय नगर, परतला, छिंदवाड़ा (म.प्र.) रिटायर हो रहे हैं तथा फर्म के नाम एवं पते में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

Vasudha Infrastructure Triveni Apartment,
(संजय श्रीवास्तव)

(G-1971)

(Partner).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "BUILDKRAFT DEVELOPERS" पंजीयन क्रमांक 05-23-01-0014-21 पंजीयन दिनांक 08-06-2021, पता-Bhagat Marketing, Hardi Road, Post Burhar, Sohagpur, Disst. Shahdol (M.P.) Pin Code 484110 कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, रीवा, शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं। यह कि इस भागीदारी फर्म में पूर्व पंजीकृत पार्टनर में से दिनांक 04-08-2023 को 1. Shri Mohit Kumar Vishnani S/o Shri Kailash Vishnani अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये और निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 04-08-2023 को फर्म की भागीदारी में नवीन साझेदार 1. Shri Kailash Vishnani S/o Late Shri Narayan Das Vishnani, Aged about 58 years, Residing of H. No. O, Ward No. 09, Kumharan Tola, Near Shiv Mandir Lalpur, Post-Burhar, Disst. Shahdol (M.P.) Pincod 484110 को सम्मिलित किया गया। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर फर्म के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्कत हो तो 07 दिवस के भीतर सूचित करें।

BUILDKRAFT DEVELOPERS,
(AJAY BHIMNANI)

(G-1972)

(Partner).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम बुलबुल सोलंकी (Bulbul Solanki) पिता प्रदीप सिंह सोलंकी, निवासी राजपूत मोहल्ला, बाजना, जिला रतलाम मध्यप्रदेश दर्ज है। अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रागिनी सोलंकी (Ragini Solanki) कर लिया है। अतः मुझे भविष्य में मेरे नए नाम रागिनी सोलंकी (Ragini Solanki) से ही के नाम जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(बुलबुल सोलंकी)

(Bulbul Solanki)

नया नाम

(रागिनी सोलंकी)

(Ragini Solanki)

(G-1973)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश कुमार तिवारी, आयु वयस्क, आत्मज श्री शिवाकान्त तिवारी, निवासी एम.आई.जी. 301,, रीगल पैराडाइज, फेस-1, अवधपुरी, भोपाल मध्यप्रदेश मेरी पुत्री का नाम सोना तिवारी से परिवर्तित कर आरना तिवारी कराना चाहता हूँ तथा भविष्य में उनके समस्त स्कूल, शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, आधार कार्ड में आरना तिवारी का उपयोग किया जाए एवं मेरी पुत्री को भविष्य में आरना तिवारी के नाम से ही जाना व पहचाना जाएगा.

भवदीय

(राजेश कुमार तिवारी).

(G-1974)

नाम परिवर्तन

मैं, अमित पाठक पिता स्व. श्री रमाकांत पाठक धनवंतरी नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम संस्कार पाठक दर्ज है. परन्तु उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम वरुण पाठक दर्ज है.

अतः मेरे पुत्र को वरुण पाठक के नाम से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अमित पाठक).

(G-1975)

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Hironi Shekhawat W/o Mr. Ranjeet Singh Shekhawat R/o B-35/377 Near Gidwani Park, Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh), Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Priyanka Hironi D/o Mr. Dilip Hironi. I got married according to Hindu customs with Mr. Ranjeet Singh Shekhawat & after Marriage my name has been changed as Mrs. Priyanka Hironi Shekhawat W/o Mr. Ranjeet Singh Shekhawat, after marriage I known as Mrs. Priyanka Hironi Shekhawat W/o Mr. Ranjeet Singh Shekhawat for all purposes on every records.

OLD NAME

(PRIYANKA HIRONI)

NEW NAME

(PRIYANKA HIRONI SHEKHAWAT)

(G-1976)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इन्दिरा आचार्य पत्नि श्री समी आलम पुत्री श्री के. एन. एम. आचार्य, निवासी-25-ए, ए-सेक्टर, हजरत निजामुद्दी कॉलोनी, पिपलानी भेल, भोपाल (म.प्र.) ने विवाह के पश्चात् अपना नाम परिवर्तित कर इन्दिरा अफशा आलम पत्नि श्री समी आलम कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(इन्दिरा आचार्य)

पुत्री-श्री के. एन. एम. आचार्य.

(G-1977)

नया नाम

(इन्दिरा अफशा आलम)

पत्नि-श्री समी आलम.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतिमा पटेल PRATIMA PATEL W/o अशेष सिंह ASHESH SINGH, निवासी मकान नंबर 6/390, बांस घाट, पुराने बस स्टेण्ड के पास रीवा मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा वास्तविक व प्रचलित नाम "प्रतिमा पटेल PRATIMA PATEL" है. मेरी शादी के बाद के मेरे कुछ दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम "प्रतिमा सिंह PRATIMA SINGH"

अंकित हो गया है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक व प्रचलित नाम "प्रतिमा पटेल PRATIMA PATEL" से ही जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी अंकित किया जावे.

पुराना नाम (प्रतिमा सिंह) PRATIMA SINGH (G-1978)	नया नाम (प्रतिमा पटेल) PRATIMA PATEL
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व पति श्री एंथोनी फ्रांसिस से विवाह विच्छेद के बाद श्री अनिल सोमानी से पुनर्विवाह होने के कारण मेरा नाम श्रीमती एंड्रीया एंथोनी से श्रीमती एंड्रीया सोमानी के रूप में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप मेरी पुत्री कु. ब्लेसी एंथोनी का नाम भी कु. ब्लेसी एंथोनी के स्थान पर कु. ब्लेसी सोमानी हो गया है, किन्तु उसकी शैक्षणिक अंकसूचियों और मेरे पूर्व विवाह की अवधि के समस्त दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम कु. ब्लेसी एंथोनी अंकित होने से वर्तमान प्रचलित नाम कु. ब्लेसी सोमानी करती हूं और अपनी अवयस्क पुत्री की मैं माता एवं नैसर्गिक संरक्षिका होने से मैं समस्त शासकीय, अशासकीय कार्य का पत्राचार एवं सम्बोधन में मेरी पुत्री का नाम कु. ब्लेसी सोमानी पढ़ा-लिखा, समझा एवं संबोधित किया जावे.

पुराना नाम (ब्लेसी एंथोनी) (G-1979)	नया नाम (ब्लेसी सोमानी) पुत्री-एंथोनी फ्रांसिस, द्वारा माता एवं नैसर्गिक संरक्षिका श्रीमती एंड्रीया सोमानी पत्नी श्री अनिल सोमानी, निवासी-ब्लॉक नं. ए-3, म. नं. जी-5, मेनिट चैराहा, राहुल नगर, भोपाल (म.प्र.).
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, दिशांक पाटीदार पुत्र श्री रामस्वरूप पाटीदार, निवासी-प्लाट नं. 35, श्रद्धा नगर, बैरागढ़ कलां, भोपाल. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता के नाम की स्पेलिंग RAM SWROOP PATIDAR लिखा गई है. जबकि सही स्पेलिंग RAM SWAROOP PATIDAR है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता के नाम की सही स्पेलिंग RAM SWAROOP PATIDAR पढ़ा जावे.

(G-1980)	प्रार्थी (दिशांक पाटीदार) S/o श्री रामस्वरूप पाटीदार, 35, श्रद्धा नगर, बैरागढ़कलां, भोपाल (म.प्र.).
----------	--

नाम परिवर्तन

श्वेता गोयल SWETA GOYAL पिता श्री रामबाबू गोयल, आयु-20 वर्ष, निवासी-म. नं. 29, जहांगीराबाद, वार्ड नं. 34, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) मेरे द्वारा अपना आधार कार्ड बनवाया गया था. जिसमें मेरा नाम श्वेता गोयल SHWETA GOYAL अंकित है जो कि गलत है तथा मेरा सही नाम श्वेता गोयल SWETA GOYAL है. जो कि मेरी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. श्वेता गोयल SWETA GOYAL के नाम से जानी व पहचानी जाती हूं. मेरे द्वारा अपने आधार कार्ड में मेरा नाम श्वेता गोयल SHWETA GOYAL के स्थान पर मेरा सही नाम श्वेता गोयल SWETA GOYAL है.

(G-1981)	भवदीय, (श्वेता गोयल).
----------	--------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित डेनियल पिता गोविंद डेनियल, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे विद्यालयीन शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रोहित डेनियल दर्ज है। जबकि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम रोहित डुमार दर्ज है जो कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे स्वयं के हैं। यह कि मैं अब रोहित डेनियल के नाम से जाना जाता हूँ अतः भविष्य में मुझे रोहित डेनियल के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(रोहित डुमार)
ROHIT DUMAR

नया नाम
(रोहित डेनियल)
ROHIT DENYAL
पता-म. नं. 2000, सिद्ध बाबा वार्ड,
लालमाटी कुशवाहा समाज स्कूल के पास,
जबलपुर (म.प्र.).

(G-1982)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णराव खाड़े पिता नारायण खाड़े (KRISHNARAO KHADE S/O NARAYAN KHADE) अंकित है। जो त्रुटि पूर्ण है। अतः मेरे समस्त दस्तावेज में कृष्णा खाड़े पिता नारायण खाड़े (KRISHNA KHADE S/O NARAYAN KHADE) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(कृष्णराव खाड़े)
(KRISHNARAO KHADE)

नया नाम
(कृष्णा खाड़े)
(KRISHNA KHADE)
पिता-नारायण खाड़े
(NARAYAN KHADE)
पता-बानुर, पो. पोहर, जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-1983)

नाम परिवर्तन

मैं, नारायण प्रसाद मार्को पिता रमेश प्रसाद मार्को, निवासी-वार्ड नं. 1, पोस्ट माधोपुर नारेनी मॉल, अन्जनिया मंडला, मध्यप्रदेश. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नारायण प्रसाद दर्ज है एवं मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम-नारायण प्रसाद मार्को दर्ज है। जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम-नारायण प्रसाद दर्ज है। उसके स्थान पर मेरा नाम-नारायण प्रसाद मार्को पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम
(नारायण प्रसाद)

नया नाम
(नारायण प्रसाद मार्को)

(G-1984)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोनम स्वामी पति विष्णु स्वामी, निवासी-660, शिवकंठ नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश. पूर्व में मेरा नाम सोनु स्वामी था. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सोनु स्वामी एवं वोटर कार्ड में सोनम स्वामी दर्ज है। मैंने अपने पुराने (पूर्व के नाम) सोनु स्वामी (Sonu Swami) नाम को बदल कर अपना नया नाम सोनम स्वामी (Sonam Swami) पति विष्णु स्वामी कर लिया है। अतः वर्तमान एवं भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सोनम स्वामी पति विष्णु स्वामी के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाए।

पुराना नाम
(सोनु स्वामी)
(Sonu Swami)

नया नाम
(सोनम स्वामी)
(Sonam Swami)
पति विष्णु स्वामी.

(G-1985)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा मेरे पूर्व विवाह की अवधि के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अनिन्दीता डे अंकित होने से वर्तमान प्रचलित नाम हीना खान करती हूं और मैं समस्त शासकीय, अशासकीय कार्य के पत्राचार एवं सम्बोधन में मेरा नाम हीना खान पढ़ा-लिखा समझा एवं संबोधित किया जावे।

पुराना नाम

(अनिन्दीता डे)

नया नाम

(हीना खान)

पत्नी श्री कमर खान,
निवासी- म. नं. 196, कैम्प नं. 12,
संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़),
भोपाल (म.प्र.).

(G-1986)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म M/s VAGAR INFRASTRUCTURE जिसका पंजीयन क्र. 01-01-01-0001-19 है. जो हाउस NO.-D3/462, दानिश नगर, होशंगाबाद रोड, हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश में स्थित है. जिसमें दिनांक 12-09-2023 तीन पार्टनर्स क्रमशः 1. विशाल यादव आत्मज श्री बलवंत यादव, 2. गौतम कुमार आत्मज सचिदानंद विश्वकर्मा, 3, रंजीत तिवारी आत्मज श्री राम कुमार तिवारी स्वैच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं. तथा

1. आदित्य बिसेन आत्मज श्री चित्रसेन बिसेन,
2. मुनुवार अंसारी आत्मज मो. साबिर अंसारी वर्तमान में संस्था के उत्तरदाई रहेंगे यह परिवर्तन लेखबद्ध दिनांक 12-09-2023 से प्रभावशील रहेगा. आमजन सर्वजन सूचित हो.

M/s VAGAR INFRASTRUCTURE,
(आदित्य बिसेन)
(भागीदार).

(G-1987)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरा नाम गोविंदराम रामलानी पिता कोदूमल रामलानी है यही नाम मेरे समस्त दस्तावेज में अंकित/दर्ज है एवं मेरे Reliance Industries के शेयर सर्टिफिकेट में मेरा नाम गोविंदराम कोदूमल रामनानी -(Govindram Kodumal Ramnani) के स्थान पर त्रुटिवश रामलानी (Ramlani) के स्थान पर रामनानी (Ramnani) अंकित हो गया है. जो सही होकर गोविंदराम कोदूमल रामलानी (Govindram Kodumal Ramlani) है. उक्त दोनों नाम अलग न होकर एक ही व्यक्ति के नाम है.

पुराना नाम

(गोविंदराम रामनानी)

नया नाम

(गोविंदराम रामलानी)

(G-1988)

पिता-कोदूमल रामलानी.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड में सिरताज सिंह आत्मज श्री चतर सिंह त्रुटिवश दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. अतः मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम श्री राज सिंह आत्मज श्री फतेह सिंह दर्ज है. जो कि सही नाम है. अतः अब मुझे श्री राज सिंह आत्मज श्री फतेह सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

(सिरताज सिंह)

आत्मज-श्री चतर सिंह.

नया नाम

(राज सिंह)

आत्मज-श्री फतेह सिंह,
पता-एचएक्स-77, ई-7, अरेरा कॉलोनी,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1989)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती जया खूबचन्दानी (JAYA KHUBCHANDANI) पत्नी श्री पुरुषोत्तम खूबचन्दानी (PURSHOTTAM KHUBCHANDANI) निवासी—गली नं 1, वार्ड नं. 4, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) विवाह पूर्व में मेरा नाम सावलानी लीना श्यामलाल पुत्री श्री श्यामलाल हारूमल सावलानी दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा विवाह के पूर्व का नाम सावलानी लीना श्यामलाल पुत्री श्री श्यामलाल हारूमल सावलानी दर्ज है. उसके स्थान पर विवाह पश्चात का मेरा नाम श्रीमती जया खूबचन्दानी (JAYA KHUBCHANDANI) पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम

(सावलानी लीना श्यामलाल)

नया नाम

(जया खूबचन्दानी)

पत्नी—श्री पुरुषोत्तम खूबचन्दानी

(G-1990)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष कुमार पिता पिस्सूलाल बाथरे, पता—ग्राम पुनौर, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार बाथरे है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम सुखदीन बाथरे है भविष्य में मुझे संतोष कुमार पिता पिस्सूलाल बाथरे की जगह सुखदीन बाथरे पढ़ा—लिखा एवं बोला—समझा जाये.

पुराना नाम

(संतोष कुमार)

नया नाम

(सुखदीन बाथरे)

पिता—पिस्सूलाल बाथरे

(G-1991)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह से पूर्व रेशमा पिता—श्री मोहम्मद जलील था. विवाह के उपरान्त मैंने अपना नाम बदलकर जैनब पत्नी श्री शोएब एहमद रख लिया है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. मेरे वोटर कार्ड, में भी मेरा नाम जैनब दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे अन्य सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रेशमा से बदलकर नवीन नाम जैनब अंकित किया जावे एवं भविष्य में मुझे मेरे नवीन नाम जैनब से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(रेशमा)

पिता—मोहम्मद जलील

नया नाम

(जैनब)

पति—शोएब एहमद

(G-1992)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री कु. अलीशा सलाम के जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकसूची में मेरा नाम "राफिया सलाम" अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि सही व वास्तविक नाम "राफिया सुल्तान" है, जो कि आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में अंकित है. अतः आगे से मुझे "राफिया सुल्तान" के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(राफिया सलाम)

नया नाम

(राफिया सुल्तान)

(G-1993)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रिया खाड़े पति कृष्णराव खाड़े (PRIYA KHADE W/O KRISHNARAO KHADE) अंकित है। जो त्रुटि पूर्ण है। अतः मेरे समस्त दस्तावेज में प्रियंका खाड़े पति कृष्णा खाड़े (PRIYANKA KHADE W/O KRISHNA KHADE) के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(प्रिया खाड़े)
(PRIYA KHADE)
पति-कृष्णराव खाड़े
(KRISHNARAO KHADE)
(G-1994)

नया नाम
(प्रियंका खाड़े)
(PRIYANKA KHADE)
पति-कृष्णा खाड़े
(KRISHNA KHADE)
पता-बानुर, पो. पोहर, जिला बैतूल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Avinash Prasad S/o Surajmal Prasad, Address Flat No. 403, Simran Homes, 36, Govind Garden Govind pura, Bhopal (M.P.) declare that in my present documents my name written as AVINASH PRASAD. Which has been changed to AVINNASH PRASAD. Now I will be known as AVINNASH PRASAD in future.

पुराना नाम
(अविनाश प्रसाद)
(AVINASH PRASAD)
(G-1995)

नया नाम
(अविनाश प्रसाद)
(AVINNASH PRASAD)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र की अंकसूची में मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा दर्ज हो गया है जो कि गलत है। अतः मेरे सभी शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हेमेन्द्र कुमार विश्वकर्मा दर्ज है जो कि सही नाम है। अतः अब मुझे हेमेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जाए।

पुराना नाम
(राजेश विश्वकर्मा)
आत्मज-श्री हुकुमचंद विश्वकर्मा
(G-1996)

नया नाम
(हेमेन्द्र कुमार विश्वकर्मा)
आत्मज-श्री हुकुमचंद विश्वकर्मा
पता-पानी टंकी के पास, बेस दरवाजा
किले अंदर, विदिशा (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Kavya Manwani here by declare that, my maiden name was Aarti Thourani D/o. Ghanshyam Das Thourani. But After my marriage, I have changed my name as Aarti Thourani To Kavya Manwani W/o Dinesh Manwani. So from now and in future I will be known as Kavya Manwani.

OLD NAME
(AARTI THOURANI)
D/o Ghanshyam Das Thourani.
(G-1997)

NEW NAME
(KAVYA MANWANI)
W/o. Dinesh Manwani,
50, Madhuban Colony, Kesar Bagh Road,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कविता चौहान (KAVITA CHOUHAN) था, जिसे बदलकर मैंने मेरा नाम परी चौहान (PARI CHOUHAN) कर लिया है, अब मेरा सही नाम परी चौहान (PARI CHOUHAN) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कविता चौहान)
(G-1998)

नया नाम
(परी चौहान)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आनंद कुमार कश्यप (ANAND KUMAR KASHYAP) है, इसके अलावा मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा गलत नाम लिखा हुआ है, उसके स्थान पर मेरा सही नाम आनंद कुमार कश्यप (ANAND KUMAR KASHYAP) लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

(G-1999)

(आनंद कुमार कश्यप)
ग्राम व पोस्ट गाजन, कोटर,
सतना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घरू नाम मास्टर प्रनव कुशवाह पुत्र श्री शिवनारायण सिंह था. इसी नाम से मेरी एक एलआईसी पॉलिसी भी है. वर्तमान में मैंने अपना नाम मास्टर प्रनव कुशवाह से बदलकर अविनाश सिंह कुशवाह रख लिया है, यही नाम मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मास्टर प्रनव कुशवाह एवं अविनाश सिंह कुशवाह मुझे एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मुझे मास्टर प्रनव कुशवाह के स्थान पर अविनाश सिंह कुशवाह के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मास्टर प्रनव कुशवाह)

नया नाम
(अविनाश सिंह कुशवाह)
पुत्र-श्री शिव नारायण सिंह,
पता-3, महाराणा प्रताप नगर, गोले का मंदिर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2000)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम विमला गुप्ता पुत्री नाथूराम था. यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. शादी के बाद मेरा नाम विमला गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता हो गया था, इस नाम से मेरी एक एलआईसी पॉलिसी भी है. वर्तमान में मैंने अपना नाम विमला गुप्ता से बदलकर रेखा गुप्ता रख लिया है, जो कि मेरे शासकीय/अशासकीय आदि दस्तावेजों में दर्ज है. विमला गुप्ता एवं रेखा गुप्ता मुझे एक ही महिला के नाम हैं. भविष्य में मुझे विमला गुप्ता के स्थान पर रेखा गुप्ता के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विमला गुप्ता)
पत्नी-श्री राजेश गुप्ता.

नया नाम
(रेखा गुप्ता)
पत्नी-श्री राजेश गुप्ता.
पता-लोहागढ़, ढोलीबुआ का पुल,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2001)

NOTICE U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932

Notice is hereby given that in the firm M/S. NRBR HOSPITALITY Registered Office at C-2, Empire Estate, AB Road Bypass, Indore 452001(MP), and Registration No. is 03/27/01/00214/12 dated 12/01/2012. Which was constituted *vide* partnership deed executed on 16th December 2011.

In this partnership firm subsequently, following changes have occurred on 24th March 2021. (1) Smt. Nirmala Bum W/o Sureshchand Bum, (2) Smt. Kalpana Goyal W/o Giriraj Ji, (3) Shri Abhay Janwade S/o Late Motiram Janwade, (4) Shri Subhash Singh Chouhan S/o Barister Singh Chouhan, (5) Smt. Rajni Mehta W/o Shri Chandrashekhar Mehta, (6) Shri Ankit Jain S/o Rajkumar Jain retired from the firm and Shri Darshan Lal Goyal S/o Shri Kanhaiyalal Goyal and Shri Ram Chandra Patidar S/o Shri Mansha Ram Ji Patidar has joined the firm as a new partner.

Now, (1) Shri Ramkumar Goyal S/o Shri Kanhaiyalal Goyal, (2) Shri Darshan Lal Goyal S/o Shri Kanhaiyalal Goyal, (3) Shri Ram Chandra Patidar S/o Shri Mansha Ram Ji Patidar are the running partners of the firm.

For NRBR HOSPITALITY

Ramkumar Goyal

(Partner)

(G-2002)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज फर्म जिसका पता- 29, रामकृष्ण गंज, खंडवा जिसका पंजीयन क्रमांक 03/32/01/0055/15, दिनांक 25-09-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री आनंद महेश्वरी पिता श्री सत्यनारायण महेश्वरी 2. श्री अनुराग राठी पिता श्री मांगीलाल राठी थे. तत्पश्चात् दिनांक 20-09-2023 को श्री संतोष महेश्वरी पिता श्री सत्यनारायण महेश्वरी भागीदारी फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज में सम्मिलित हो गये है एवं श्री अनुराग राठी पिता श्री मांगीलाल राठी भागीदारी फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज से पृथक हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.

तर्फे

मेसर्स कावेरी कोल्ड स्टोरेज,

1. आनंद महेश्वरी 2. संतोष महेश्वरी
(पार्टनर).

(G-2003)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स धीर मैन्युफैक्चरिंग फर्म जिसका पता- आर- 16 पोलोग्रौंड, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0171/23, दिनांक 07-07-2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमति राधा कासलीवाल पति श्री आदित्य कासलीवाल 2. श्रीमति शिखा कासलीवाल पति श्री अमित कासलीवाल 3. राजकुमार वर्मा पिता सुरेश कुमार वर्मा 4. श्रीमति माया वर्मा पति श्री राजकुमार वर्मा थे. तत्पश्चात् दिनांक 18-08-2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्रीमति राधा कासलीवाल पति श्री आदित्य कासलीवाल 2. श्रीमति शिखा कासलीवाल पति श्री अमित कासलीवाल भागीदारी फर्म मेसर्स धीर मैन्युफैक्चरिंग से पृथक हो गए है, भागीदार ने फर्म मेसर्स धीर मैन्युफैक्चरिंग से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.

तर्फे

मेसर्स धीर मैन्युफैक्चरिंग,

1. राजकुमार वर्मा 2. श्रीमती माया वर्मा
(पार्टनर).

(G-2004)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे एवं मेरी पत्नी का नाम अपने बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में त्रुटिवश मुझ सूचनाकर्ता का नाम बनवारी लाल सेंथिया एवं पत्नी का नाम रानी सेंथिया दर्ज करा दिया गया था. जबकि आधार कार्ड, समग्र आई. डी. व अन्य दस्तावेजों में मुझ सूचनाकर्ता का नाम बनवारी लाल शर्मा (Banvari Lal Sharma) एवं मेरी पत्नी का नाम सरिता शर्मा (Sarita Sharma) दर्ज हैं जो कि मेरे एवं मेरी पत्नी के सही नाम हैं. अतः मेरे बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा एवं मेरी पत्नी का नाम सरिता शर्मा दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मुझे एवं मेरी पत्नी को हमारे उपरोक्त सही नामों से जाना-पहिचाना जाये.

भवदीय

बनवारी लाल शर्मा

पुत्र स्व० श्री जानकी प्रसाद शर्मा,

निवासी- 8/ ए, आदित्यपुरम, महाराजपुरा,

ग्वालियर (म. प्र.)

(G-2005)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में त्रुटिवश बेटे का नाम साकेत सेंथिया (Saket Senthia) एवं बेटे का नाम अंजलि सेंथिया (Anjali Senthia) (पूर्व नाम) दर्ज करा दिये गये थे. जबकि बच्चों के आधार कार्ड, समग्र आई. डी. में बेटे का नाम साकेत शर्मा (Saket Sharma) एवं बेटे का नाम अंजलि शर्मा (Anjali Sharma) दर्ज हैं और जो कि उनके सही नाम हैं. अतः मेरे बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में उपरोक्त सही नाम दर्ज किया जावे और भविष्य में मेरे बच्चों को उनके उपरोक्त सही नामों से जाना-पहिचाना जाये.

द्वारा आवेदक

पिता-(बनवारी लाल शर्मा)

निवासी- 8/ ए, आदित्यपुरम,

महाराजपुरा, ग्वालियर (म. प्र.)

(G-2006)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र परते, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम आयुषी परते (Ayushi Parte) अंकित है जो कि सही है. त्रुटिवश आधार कार्ड में उसका नाम अदिति परते (Aditi parte) हो गया है, इस विज्ञप्ति के उपरांत मेरी पुत्री को आयुषी परते (Ayushi Parte) के नाम से लिखा-पढ़ा, जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए.

(जितेन्द्र परते)

(G-2007)

69, टेमझिरा ब मुलताई, बैतूल (एम. पी.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम पार्वती अहिरवार (Parvati Ahirwar) से पार्वती (Parvati) कर लिया है. अतः भविष्य में मेरा नाम पार्वती पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम

(पार्वती अहिरवार)

Parvati Ahirwar

(G-2008)

नया नाम

(पार्वती)

Parvati

34, गढ़मुरा, भोपाल (म. प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुशाग्र नागपाल पिता श्री ललित नागपाल, निवासी -505, साईट नं. 1 सिटी सेंटर, ग्वालियर 474011 हूँ, यह कि, मेरा पूरा नाम कुशाग्र नागपाल ही है और मैं, अपने नाम में कुशाग्र नागपाल (Kushagrra Nagpal) कराना चाहता हूँ और सभी जगह मुझे इसी नाम से जाने पहचाने और लिखें. आमजन और सर्वजन को सूचित हो.

पुराना नाम
(कुशाग्र नागपाल)
(Kushagra Nagpal)

नया नाम
(कुशाग्र नागपाल)
(Kushagrra Nagpal)

(G-2009)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स श्रीजन बिल्डवैल पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0099-16 सन् 2016-2017 दिनांक 24-10-2016 पंजीकृत फर्म हैं तथा फर्म का पता-ओ-5, आशियाना बिल्डिंग, नियर मोती पैलेस, फूलबाग रोड, गिर्द, ग्वालियर 474001 है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 10 मई 2023 को श्री सुरेन्द्र शर्मा पिता श्री राम स्वरूप शर्मा, निवासी-सी-105, गोविन्दपुरी, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में शामिल किया गया है तथा श्री मनोज कुकरेजा पिता स्व. श्री लीला राम कुकरेजा निवासी-15, शाम्भाजी कालोनी, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर अपनी सहमति से इस भागीदारी फर्म से बाहर (पृथक) हो रहे है. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हों.

मैसर्स श्रीजन बिल्डवैल
(राजकुमार कुकरेजा)
भागीदार.

ओ-5, आशियाना बिल्डिंग, नियर मोती पैलेस,
फूलबाग रोड, गिर्द, ग्वालियर

(G-2010)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म "पेशवाव्हीट" (M/s. Peshwa Wheat), पता 5, अपैरल क्लस्टर, बिजेपुर, धार रोड, बेटमा के पास, इंदौर-452001(म. प्र.), प. क्र. 03-27-01-0213-17 दिनांक 24-11-2017 है. भागीदारी फर्म में दिनांक 07-10-2023 को (1) श्री राहत अली सैयद पुत्र श्री नियाज़ अली सैयद, पता-73 सेक्टर-एच, ग्रीनपार्क, गार्डनरोड, इंदौर, मध्यप्रदेश-452002; (2) श्री रियाजुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री वजीरुद्दीन कुरैशी, पता -बरवानी नगर पालिका, बरवानी, मध्यप्रदेश-451551; (3) श्रीमती अमरीन कुरैशी पत्नी श्री जेदकुरैशी, पता-73 एच, ग्रीन पार्क, ग्राम बैंक, इंदौर, मध्यप्रदेश-452002; (4) श्री जैद कुरैशी पुत्र श्री रियाजुद्दीन कुरैशी, पता-73 सेक्टर-एस, ग्रीनपार्क, इंदौर, मध्यप्रदेश-452002, (5) श्रीमती रूबीनाज़ खान, पता -पत्नी श्री मोहम्मद युसुफ खान, 45/1 मोती तबेटा, इंदौर, मध्यप्रदेश-452002, शामिल हुए.

FOR Peshwa Wheat
(श्रीमती सदफ़ सैय्यद)
भागीदार.

पता-73 सेक्टर-एच, ग्रीन पार्क कॉलोनी,
एएम रेजीडेंसी, इंदौर, मध्यप्रदेश.

(G-2011)

आम सूचना

(भारतीय साझेदारी विधान 1932 की धारा 72 के अन्तर्गत सूचना)

सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स जय मेडिकल कॉर्पोरेशन, एल.जी. 109, दवा बाजार, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर (म. प्र.), फर्म पंजीयन क्रमांक IF-25-03-04 सन् 2003, दिनांक 29-05-2003 पैसे एक भागीदार श्री श्रीगोपल पसारी, निवासी 23-03, यशवंत निवास रोड़, इन्दौर (म. प्र.) के दिनांक 01-04-2023 से उक्त भागीदारी व्यवसाय से पृथक् होने के कारण उनकी भागीदारी समाप्त हो गई है. तत्पश्चात् शेष रहे भागीदारों ने उक्त भागीदारी व्यवसाय को पूर्ववत् जारी रखते हुए दिनांक 01-04-2023 को भागीदारी परिवर्तन की शर्तों की आपसी लिखा-पढ़ी लेखबद्ध कर ली है, जो हम सभी भागीदारों पर दिनांक 01-04-2023 से बंधनकारी होगी.

भवदीय,

मेसर्स जय मेडिकल कॉर्पोरेशन

अखिलेश पसारी

(पार्टनर).

(G-2012)

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. 15069-TDS-03-UJN-2022-5927.

उज्जैन, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

प्ररूप-उन्नीस

[नियम 19 (13) देखिये]

[धारा 50 की उपधारा (11) के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा, यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS- 03/2022 अर्थात् ग्राम निमनवासा, लालपुर, नागझिरी एवं ग्राम धतरावदा को संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिविन्यास मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क) प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :-

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन
 2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
 3. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला कार्यालय उज्जैन
 4. कार्यालय, नगरपालिक निगम, उज्जैन
 5. प्राधिकरण की वैबसाईट अर्थात् www.udaujain.org
- उपरोक्त स्कीम दिनांक 6 अक्टूबर 2023 से प्रभावशील होगी.

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-2013)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 16 जनवरी 2023

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक / 1543 / रीडर-1 / 23.-आवेदक श्री पदम प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर मालवा ग्रीन इन्दौर, पता-दुकान न. 4, बोहरा मस्जिद काम्पलेक्स, 22 / 2, उषागंज, छावनी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो, वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री पदम प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर मालवा ग्रीन इन्दौर, पता-दुकान न. 4, बोहरा मस्जिद काम्पलेक्स, 22 / 2, उषागंज, छावनी, इन्दौर.
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	1,07,166 / -
आज दिनांक.....	:	को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2014)

अंशुल खरे, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बेगमगंज, दिनांक 29 सितम्बर, 2023

क्रमांक-1357-रीडर-2023 / प्र.क्र. 01-बी-113 / 2023-24.-एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन आ. श्री राजाराम जैन, निवासी-वार्ड क्रमांक 13, दीन दयाल कॉलोनी, बेगमगंज द्वारा मंदिर न्यास समिति हेतु अंतर्गत धारा 4 व 5 सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर मंदिर न्यास के रूप में "पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर बेगमगंज" न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठन किये जाने का निवेदन किया है. जिसमें उनके द्वारा मंदिर न्यास के लिये सम्माननीय न्यास समिति सदस्यों के नाम निम्नानुसार प्रस्तावित किये हैं :-

1. श्री अक्षय कुमार जैन आ. सुम्मीलाल जैन, (अध्यक्ष)
निवासी-वार्ड क्रमांक 06, गांधी बाजार, बेगमगंज.
2. श्री मनीष कुमार जैन आ. उत्तमचंद जैन, (उपाध्यक्ष)
निवासी-वार्ड क्रमांक 12, बेगमगंज.
3. राजीव कुगार जैन आ. नंदन जैन, (उपाध्यक्ष)
निवासी-वार्ड क्रमांक 13, बेगमगंज.

4. श्री मुकेश कुमार जैन आ. सुरेश चंद जैन, (कोषाध्यक्ष)
निवासी-वार्ड क्रमांक 06, बेगमगंज.
5. श्री मनोज कुमार जैन आ. लक्ष्मीचंद जैन, (महामंत्री)
निवासी-वार्ड क्रमांक 05, बेगमगंज.
6. श्री आलोक कुमार जैन आ. अमरचंद जैन, (सचिव)
निवासी-वार्ड क्रमांक 06, बेगमगंज.
7. श्री महेन्द्र कुमार जैन आ. डालचंद जैन, (सदस्य)
निवासी-वार्ड क्रमांक 13, बेगमगंज.
8. श्री ऋषभ कुमार आ. कुंदनलाल, (सदस्य)
निवासी-वार्ड क्रमांक 05, बेगमगंज.
9. श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन आ. राजाराम जैन, (संरक्षक)
निवासी-वार्ड क्रमांक 13, बेगमगंज.
10. देवेन्द्र कुमार जैन आ. हरप्रसाद जैन, (संरक्षक)
निवासी-वार्ड क्रमांक 13, बेगमगंज.

आवेदकगणों द्वारा अपने आवेदन-पत्र के साथ मूर्तियाँ एवं धर्मशाला इत्यादि एवं मंदिर में चढ़ावा सोना चांदी आदि की सूची एवं मंदिर स्थित परिसम्पत्तियों की सूची भी निम्नानुसार संलग्न प्रस्तुत की है:-

श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, बेगमगंज, जिला रायसेन मंदिर में चढ़ावा सोना, चांदी आदि.

क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या	वजन	अनुमानित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मार्डना शांति विधान	1		
2.	स्थाप बड़े चांदी की	2		
3.	छोटे स्थाप	2		
4.	थाली चांदी	1		
5.	कलश	14		
6.	चम्मच	8		
7.	रकाबी	8		
8.	कटोरी	2		
9.	आरती वाली थाली	1		
10.	हाथी आरती	1		
11.	छोटी आरती	5		
12.	चौका लकड़ी	2		
13.	पांडुक शिला चांदी की	2		
14.	सिंहासन चांदी की	2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	शांति धारा झारी	2		
16.	कशेड़ी चांदी की	2		
17.	श्रीफल	4		
18.	थाली कोपर	6		
19.	लोटा	6		
20.	कलसी	4		
21.	छत्र	25		
22.	मुकुट	24		
23.	कालशी	228		
कुल वजन			65KG	3200000 रुपये
1.	स्वर्ण कलश	8		
2.	स्वर्ण झाड़ी	2		
3.	स्वर्ण छत्र	22		
कुल वजन			1.760 GRAM	
Total			5.760 Gram	1,10,00000 रुपये

अचल सम्पत्ति

श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेगमगंज स्थित परिसंपत्तियों की सूची

1. श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, बेगमगंज.
2. विद्यासागर भवन, वार्ड नंबर 4, बेगमगंज.
3. पुरानी धर्मशाला, वार्ड नंबर 4, बेगमगंज.
4. नसिया जी गम्हरिया रोड, बेगमगंज.
5. खुली भूमि(प्लांट) चित्रांश मंदिर के पास, गमरिया रोड, बेगमगंज.
6. धर्मशाला पाठशाला भवन, गांधी बाजार, बेगमगंज.
7. खुली भूमि (प्लांट) हनुमान बाग कॉलोनी, बेगमगंज.
8. छोटी नसिया स्थित कबीर चौराहा, बेगमगंज.
9. धर्मशाला एवं पुराना घर, गांधी बाजार, बेगमगंज.

क्र.	वस्तु का नाम	संख्या	अनुमानित मूल्य
1.	पीतल की छोटी मूर्ति	95	
2.	पीतल की बड़ी मूर्ति	57	
3.	चांदी की मूर्ति	7	
4.	पाषाण की मूर्ति	54	

कुल संख्या-221

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर प्रकरण दर्ज कर इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है. अतः जिस किसी व्यक्ति / संस्था / समुदाय या अन्य को उक्त "पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर बेगमगंज" को न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठन किये जाने पर कोई आपत्ति / दावा या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो सात दिवस तक इस न्यायालय में समक्ष में या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत कोई भी दावा / आपत्ति या पक्ष स्वीकार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 19 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(G-2015)

सौरभ मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी लटेरी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

लटेरी, दिनांक 19 सितम्बर 2023

प्रारूप-क

[देखे नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 पर 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम (1) के द्वारा]

क्रमांक / स्टेनो / 2023 / 2216.—यह कि आवेदक व्यंकटेश्वर सिंह रघुवंशी पुत्र सूरजप्रकाश रघुवंशी, निवासी कस्बा लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा मध्यप्रदेश के द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन किया जाने बाबत आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16-10-2023 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा. किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन पेश करना चाहिये और मेरे समक्ष में उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	: श्री हनुमान मंदिर तपोवन भूमि आश्रम, लटेरी.
लोक न्यास का कार्यालय	: कार्यालय, श्री हनुमान मंदिर तपोवन भूमि आश्रम लटेरी, वार्ड क्रमांक 02, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.
लोक न्यास की अचल संपत्ति	: चांदी के दो मुकुट, चांदी का हार, छत्र चांदी का
लोक न्यास की चल संपत्ति	: 2,38,000/- (दो लाख अड़तीस हजार रुपये).

आज दिनांक 19 सितम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2016)

सुश्री निकिता तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2056 / प्रवा.-2 / 2023

सारंगपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2023

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 की धारा 5 (2) देखिए]
शीर्षक—श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पद्मावती पोरवाल समाज ट्रस्ट पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

क्रमांक/बी1113/2022-23.—चूंकि आवेदकगण दिगंबर जैन समाज, सारंगपुर के द्वारा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पद्मावती पोरवाल समाज ट्रस्ट का गठन किया गया है. जिसका अनुमोदन समाज के द्वारा साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव कर किया गया. जिसकी घोषणा उप पंजीयक कार्यालय, सारंगपुर में निष्पादित दस्तावेज क्रमांक MP309882022A1488093 दिनांक 11-05-2022 से की गई है. उक्त ट्रस्ट को विधिवत् घोषित करने हेतु इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्वसंबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है. जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो इसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अवधि सूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अंदर सुझाव, आपत्ति दो प्रति में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें.

उक्त नियत अवधि के पश्चात् सुझाव-आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

परिशिष्ट-अ

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर
पद्मावती पोरवाल समाज ट्रस्ट, सारंगपुर.
2. न्यास की चल संपत्ति का विवरण : निरंक
3. न्यास की अचल संपत्ति : निरंक

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 13 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-2017)

सुनील उपाध्याय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 16 अगस्त 2023

[म.प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्र. परि.-2023-2582.—अर्पण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक-1422 उज्जैन, दिनांक 27-04-1996 है. संस्था को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-583, उज्जैन, दिनांक 06-03-2020 से संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाने के कारण संस्था में विभिन्न आदेशों के द्वारा परिसमापकों की नियुक्ति की गई है तथा वर्तमान में श्री मुकेश जोशी (सहकारी निरीक्षक) को परिसमापक नियुक्त हैं. संस्था के परिसमापक एवं सदस्यों द्वारा संस्था की आमसभा में निर्णय पारित कर पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है. जिसकी परिसमापक द्वारा भी अनुशंसा की गई है. उक्त संस्था के संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापित संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99- पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 99 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझसे वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./583 उज्जैन, दिनांक 06-03-2020 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (4) के अंतर्गत अर्पण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक-1422, उज्जैन, दिनांक 27-04-1996 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधकारिणी समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री मुकेश जोशी, (सहकारी निरीक्षक) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(G-2018)

क्र. परि.-2023-2688.

उज्जैन, दिनांक 12 सितम्बर 2023

[म.प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन	DR/UJN/1627/05-02-2004

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ओर न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण तथा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक का नाम / पद
1.	शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1627/05-02-2004	श्री एस. एल. चौहान, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-2019)

क्र. परि.-2023-2687.

उज्जैन, दिनांक 12 सितम्बर 2023

[म.प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3), के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री राम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन	DR/UJN/1039/13-03-1992

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ओर न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण तथा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
1.	श्री राम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1039/13-03-1992	श्री एस. एल. चौहान, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-2020)

ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारिता विभाग, जिला खण्डवा

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

जावक क्र. क्यू-1.

खण्डवा, दिनांक 6 जुलाई 2023

[म.प्र. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

पंजीयन क्रमांक परिसमापन में लाये जाने का दिनांक:-

माँ रेवा रेत उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित, बिल्लौराखुर्द 2214/5-3-2013, 352/10-03-2021.

नवयुवक कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा 1064/28-10-1994, 394/8-4-2022

श्री सत्य विजय संयुक्त कृषि सह.स. मर्यादित, बोरगांव बुजुर्ग 15/08-02-1963, 479/10-5-2022

आदर्श महिला सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा 1198/27-12- 434/31-3-2021.

माँ कालिका यातायात सहकारी समिति, खंडवा 1459/01-05-1962, 832/21-08-2012.

महात्मा गांधी सड़क भवन निर्माण सह.स.मर्यादित खंडवा 1141/7-8-1974, 12/12-01-2022.

दि क्लथ डाईंग एंड प्रिंटिंग औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित 621/5-2-1954, 79/10-05-2022

आदर्श श्रमिक काष्ठ कला औद्योगिक सह.स. मर्यादित खंडवा 1185/08-10-1939, 4/08-04-2022

नेहरू गुड़ खांडसारी सहकारी समिति मर्यादित, गुड़ीखेड़ा 332/25-02-1991, 479/10-05-2022

मध्यप्रदेश गंगा यातायात अन्वयवसायीस. स. मर्यादित, बोरगांव बुजुर्ग 1455/31-7832/21-08.2012

बालाजी कटलरी पटवा गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, खंडवा 1145/2434/31-03-2021

आदिवासी कुक्कट पालन सहकारी समिति मर्यादित, घाटाखेड़ी 1233/13-03-1984, 479/10-05-2022

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकार गण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जाएगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जायेंगे।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

दावे प्रस्तुत करने का पता-उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला खण्डवा।

(G-2021)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक।

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1159 तथा दिनांक 06-10-2000 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय 'को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1159 तथा दिनांक 06-10-2000 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1159 तथा दिनांक 06-10-2000 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 8 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया।

(G-2022)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय 'को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08 सितम्बर 2023 को जारी किया गया।
(G-2023)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1859 तथा दिनांक 23-03-2017 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय 'को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव एवं सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन के माध्यम से संस्था का निर्वाचन कराने में व्यक्त कर संस्था को बंद करने का निवेदन किया गया है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1859 तथा दिनांक 23-03-2017 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1859 तथा दिनांक 23-03-2017 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08 सितम्बर 2023 को जारी किया गया।
(G-2024)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटीज, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

क्र.-परि.-2023-710

झाबुआ, दिनांक 4 अगस्त, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रानापुर, जिला झाबुआ जिसका पंजीयन क्र. 328, दिनांक 04-02-1956 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2022-537, दिनांक 28-06-2022 से परिसमापन में लाया जाकर श्री कैलाश मुवेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. परिसमापक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त संस्था को पुनः कार्यशील बनाना उसके बहुसंख्यक सदस्यों के हितों को संरक्षित करना होगा.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर एक सक्षम ईकाई के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदत्त होना चाहिए तथा संस्था को पुनर्जीवित करना ही उचित होगा.

अतः मैं, डी. सी. भिड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन के संबंध में जारी सन्दर्भित अधिसूचना के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत "चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., रानापुर, जिला झाबुआ को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार अस्थाई कामकाज कमेटी 03 माह के लिए नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री संजय पिता विठठल सोलंकी	अध्यक्ष
2.	श्री भगला पिता पन्ना गेहलोत	उपाध्यक्ष
3.	श्री कमलेश पिता मोहन गेहलोद	संचालक
4.	श्री राहुल पिता दलसुख गेहलोद	संचालक
5.	श्री महेश पिता छगन सोलंकी	संचालक
6.	श्री विक्रम पिता लक्ष्मण मकवाना	संचालक
7.	श्री प्रकाश पिता कैलाश गेहलोत	संचालक
8.	श्री दिलिप पिता भगला मकवाना	संचालक
9.	श्री रमेश पिता पन्ना गेहलोत	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 4 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

नोट:-संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर 03 माह में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा की स्थिति में पुनः वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(G-2025)

क्र.-परि.-2023-711

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

रेला मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या., गंगाखेडी, जिला झाबुआ जिसका पंजीयन क्र. 1014, दिनांक 19-08-2010 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2017-527, दिनांक 10-07-2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री कैलाश मुवेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. परिसमापक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त संस्था को पुनः कार्यशील बनाना उसके बहुसंख्यक सदस्यों के हितों को संरक्षित करना होगा.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदत्त होना चाहिए तथा संस्था को पुनर्जीवित करना ही उचित होगा.

अतः मैं, डी. सी. भिड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन के संबंध में जारी सन्दर्भित अधिसूचना के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के अन्तर्गत "रेला मत्स्यपालन सहकारी संस्था मर्या., गंगाखेडी", जिला झाबुआ को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार अस्थाई कामकाज कमेटी 03 माह के लिए नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री नाथु पिता वागजी गरवाल	अध्यक्ष
2.	श्री रामचन्द्र पिता काल हटिला	उपाध्यक्ष
3.	श्री नानालाल पिता कोदा मुणिया	संचालक
4.	श्री सुकराम पिता देवाजी भाभर	संचालक
5.	श्री रमेश पिता नानजी निनामा	संचालक
6.	श्री बालु पिता झोग सर पोटा	संचालक
7.	श्री मागु पिता गरवाल	संचालक
8.	श्री रमेश पिता नाथु गामड़	संचालक
9.	श्री नागु पिता लाल सोलंकी	संचालक
10.	श्री मगीलाल पिता कालु गरवाल	संचालक
11.	गटटु पिता नाथु गमड़	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 4 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

नोट:-संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर 03 माह में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा की स्थिति में पुनः वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(G-2026)

डी. सी. भिड़े, प्र. डिप्टी रजिस्ट्रार.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

महू, दिनांक.

प्रारूप-तृतीय

(नियम 5 (1) देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

प्र. क्र.-01-बी-113 (1)-2023-24.-एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर के समक्ष यह कि आवेदक ओमप्रकाश परसावदिया प्रबंधक "चन्द्रवंशीय, खाती समाज धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास पता-ग्राम कुमठी " का लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 22 सितम्बर 2023 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सूझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसार के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता व लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : चन्द्रवंशीय, खाती समाज धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास
2. चल संपत्ति : 1,40,000.00
3. अचल संपत्ति : निरंक.

(G-2027)

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2023—आश्विन 21, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)